

@shahjahanpurpol

(प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दिनांक 03.01.2023)

एस0ओ0जी0 टीम एवं थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा

25000/-रु0 का पुरस्कार घोषित/वांछित अपराधी वसीम रजवी (कबाडी) गिरफ्तार, चोरी की

गाडी को काटकर बेचे गये पार्टस से मिले 92000 रु0 व 02 आर0सी0 बरामद ।

विगत कुछ माह पूर्व जनपद के थानाक्षेत्र सदर बाजार व थाना कोतवाली में अज्ञात चोरों द्वारा चार पहिया/दो पहिया वाहन चोरी की घटनाएं प्रकाश में आयी थी जिनके सम्बन्ध में दोनों थानों पर करीब आधा दर्जन अभियोग अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत हुये थे। उक्त घटनाओं का अनावरण करके वाहन चोर गैंग के कुल 05 सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया था कि हम लोग गाडी चोरी करके जनपद बरेली के बहेडी कस्बे के रहने वाले वसीम रजवी कबाडी को बेच देते हैं। तब से पुलिस वसीम कबाडी की तलाश कर रही थी जो करीब 08 माह से अपनी मौजूदगी छुपाये हुये था।

उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित कर स्थानीय पुलिस के साथ एसओजी टीम को भी इसकी गिरफ्तार हेतु निर्देशित किया गया था।

दिनांक 02.1.2023 को एसओजी0 एवं थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को समय 22.30 बजे रोडवेज बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की गाडी काटकर प्राप्त किये गये 92 हजार रुपये नगद व काटी गयी गाडियों की 02 आर0सी0 बरामद हुयी है।

नाम/पता अभियुक्त

1. **वसीम रजवी (कबाडी)** पुत्र शकूर अहमद नि0मो0 तांडा बेरी वाली कुईया के पास थाना बहेडी जनपद बरेली उम्र करीब 32 वर्ष

(आपराधिक इतिहास सहित)

1. मु0अ0सं0 262/22 अन्तर्गत धारा 379 भादंवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 465/22 धारा 379 भादंवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 173/22 धारा 379 भादंवि थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0 174/22 धारा 379 भादंवि थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
5. मु0अ0सं0 344/19 धारा 411/413/420/467/468/471 थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद।

बरामदगी का विवरण –

1. कुल 92000/- रुपये
2. दो अदद मोबाईल फोन
3. दो अदद आर0सी0 (काटी गयी गाडियों की)
4. एक पिडू बैग,

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि

अभियुक्त से बरामद रुपये के संबंध में गहनता से पूछा गया तो बताया कि मेरा कस्बा बहेडी में लोहे के कबाड़ का काम है। अब से लगभग आठ दस माह पहले मेरी दोस्ती 1. मो0 रफी 2. इकबाल खान 3. मो0 फैज

4. सलामत शाह 5. आमिर हुसैन से हुई थी। हम लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। योजनाबद्ध तरीके से चार पहिया वाहनों की चोरी करके मो0 रफी, इकबाल खान, मो0 फैज, सलामत शाह, आमिर हुसैन मुझे देते थे। मैं उन गाड़ियों को काटकर तथा उनके पार्टस को अलग-अलग करके बेचता था। उक्त लोगों ने बहुत से दो पहिया व चार पहिया वाहन चोरी करके मुझे दिये थे। मैं दो पहिया वाहन के 10 हजार व चार पहिया वाहन के 21 हजार रुपये इन्हे देता था। कुछ दिन पहले मो0 रफी, मो0 इकबाल खान, मो0 फैज, सलामत शाह तथा आमिर हुसैन को शाहजहाँपुर पुलिस ने पकड़कर इन्हे जेल भेजे थे। इन लोगो ने मेरा नाम भी पुलिस को बता दिया था तब से मैं इधर उधर छिपकर गिरफ्तारी से बच रहा था। मेरे बैग में जो 92 हजार रुपये बरामद हुए हैं यह रुपये मो0 रफी, इकबाल खान, मो0 फैज द्वारा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर से चोरी की गई चार पहिया गाड़ी बीट वैगेनार तथा थाना सदर बाजार से चोरी की गई चार पहिया गाड़ी होण्डा सिटी, टवैरा गाड़ियों के पार्ट व उसका अन्य सामान बेचने से मिले हैं तथा जो दो रंगीन आर0सी0 प्राप्त हुई हैं यह इन्ही चोरी की गाड़ियों के साथ मिली थी। गाड़िया मैंने पूर्व में ही कटवा दी थी तभी से यह रंगीन आर0सी0 मेरे बैग में पड़ी है।

पुलिस टीम-

1. उ0 नि0 रोहित एस0ओ0जी0 प्रभारी जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री नागेन्द्र तिवारी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
3. हे0का0 269 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 243 तौसीम हैदर साइबर सेल जनपद शाहजहाँपुर
5. हे0का0 157 उदयवीर सिंह एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 1435 दिलीप एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर
7. का01805 प्रभात चौधरी एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर
8. हे0का0 245 चालक कपिल ठाकुर एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर
9. हे0का0 407 नीरज कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
10. हे0का0 13 प्रदीप कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।